



पपू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। पार्टी के अध्यक्ष पपू यादव ने इसका एलान कर दिया है।

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

एक्शन इंडिया

वर्ष: 15 अंक: 79 पृष्ठ: 08

RNI : UTTHIN/2009/31653



actionindiaddn@gmail.com

उत्तराखण्ड संस्करण

दिल्ली - हरियाणा - हिमाचल प्रदेश - उत्तराखण्ड



आदर्श विचार

सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है।

भागवद



मन की बात

सच को कहने के हजारों तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो वही रहता है।
स्वामी विवेकानंद



तीसरी आंख

'रोहिंग्याओं को भारत में बसने का हक नहीं'

टीएम एक्शन इंडिया नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा है कि अवैध रोहिंग्याओं को भारत में बसने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामा में ये बातें कही हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि एक विदेशी नागरिक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यहाँ जीवन जीने और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है लेकिन उसे देश में निवास करने और बसने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि रोहिंग्याओं को तिब्बती और श्रीलंकाई शरणार्थियों के समान नहीं मान सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की भी एक सीमा है और वो उस हद को पार करके संसद की शक्तियों को कमतर नहीं कर सकता है। याचिका प्रियाली सुर ने दायर की है। याचिका में हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं की रिहाई की मांग की गई है। याचिका में सुर ने तिब्बत और श्रीलंका के शरणार्थियों का हवाला देकर मांग की कि रोहिंग्याओं के साथ भी सरकार वैसा ही व्यवहार करे।

नियुक्ति...

'राजनीतिक विवाद खड़ा करना है याचिका का मकसद'

टीएम एक्शन इंडिया नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। चुनाव आयुक्तों के चयन में मुख्य न्यायाधीश को शामिल न करने के चलते नियुक्ति रद्द करने की मांग का केंद्र सरकार ने विरोध किया है।

नियुक्ति रद्द करने की मांग का केंद्र ने किया विरोध: केंद्र ने अधिनियम पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदनों का विरोध करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग या किसी अन्य संगठन या प्राधिकरण की स्वतंत्रता का सवाल ही नहीं उठता और यह चयन

'45 प्रतिशत स्टार्ट-अप का नेतृत्व महिलाएं कर रही'

= हमारी युवा शक्ति की नवोन्मेषी भावना से संचालित भारत का स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र अमृतपूर्व गति से फल-फूल रहा: पीएम मोदी

महाकुंभ

8 आमतौर पर कारोबारी दिमाग सोचता है कि चुनाव नजदीक हैं, जब नई सरकार सत्ता में आएगी तब देखा जाएगा: पीएम

टीएम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा कि 45 प्रतिशत से अधिक भारतीय स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। हमारी युवा शक्ति की नवोन्मेषी भावना से संचालित भारत का स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र अमृतपूर्व गति से फल-फूल रहा है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि आमतौर पर कारोबारी दिमाग सोचता है कि चुनाव



नजदीक हैं, जब नई सरकार सत्ता में आएगी तब देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उसके बावजूद आपने इतना बड़ा आयोजन किया है। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि अगले पांच साल में क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा।

उन्होंने कहा, मैं यहाँ भविष्य के उद्यमियों और युनिकॉर्न को देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना तंज कसा कि स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं, राजनीति में तो ये बहुत ज्यादा होता है और बार-बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में और उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं, एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले

'कुछ को बार-बार करना पड़ता है लॉन्च'

टीएम एक्शन इंडिया नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को स्टार्टअप महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कई लोग राजनीति में स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश करते हैं और उन्हें बार-बार लॉन्च करना पड़ता है, ऐसे लेकिन आप लोगों में और उनके बीच नए विचारों का फर्क है। पीएम मोदी ने कहा कि स्टार्टअप

लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं, राजनीति में तो ये बहुत ज्यादा होता है और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में और उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं, एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब देश 2047 के विकसित भारत के रोडमैप पर काम कर रहा है, ऐसे समय में मुझे लगता है कि इस स्टार्टअप महाकुंभ का बहुत महत्व है।

नौकरी निमाता बनने का रास्ता चुना है। भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। इस सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए देश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण की तरफ अनेक कदम उठाए हैं। भारत ने स्टार्टअप-20 के तहत दुनिया भर के लिए इकोसिस्टम को एक साथ लाने का प्रयास किया है। इसी भारत मंडपम में जी-20 के दिल्ली घोषणापत्र में पहली बार स्टार्टअप को न सिर्फ शामिल किया गया, बल्कि उन्हें विकास का प्राकृतिक इंजन भी माना गया। स्टार्टअप को डिजिटल इंडिया द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक बड़ी प्रेरणा है और सुझाव दिया कि कॉलेज इसे एक केस स्टडी के रूप में लें। उन्होंने उल्लेख किया कि यूपीआई फिन-टेक स्टार्टअप के लिए समर्थन का एक स्तंभ बन गया है जो देश में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए नवीन उत्पादों और सेवाओं के युवाओं ने नौकरी चाहने वाले के बजाय

पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से की बात

टीएम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लाडिमिर जेलेन्स्की से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत-यूक्रेन साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "भारत-यूक्रेन साझेदारी को मजबूत करने पर राष्ट्रपति व्लाडिमिर जेलेन्स्की के साथ अच्छी बातचीत हुई। शांति के लिए सभी प्रयासों और चल रहे संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के लिए भारत के निरंतर समर्थन से अवगत कराया। भारत निर्देशित मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखेगा।"

पुतिन से पीएम मोदी ने की टेलीफोन पर बातचीत : आपको बता दें कि इस बीच पिछले रविवार को चुनाव में भारी मतों से विजयी हो कर छह और वर्षों के लिए राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन से पीएम नरेन्द्र मोदी ने बुधवार (20 मार्च) को टेलीफोन पर बात की। पीएम मोदी पहले ही दोनों नेताओं के बीच इस बात की सहमति बनी की वह भारत व रूस के विशेष रणनीतिक रिश्ते को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाएंगे। साथ ही दोनों नेताओं ने मौजूदा द्विपक्षीय रिश्तों



चर्चा

8 दोनों नेताओं ने भारत-यूक्रेन साझेदारी को और मजबूत करने पर की चर्चा

के विभिन्न आयामों की भी समीक्षा की, क्षेत्रीय व वैश्विक हालातों पर भी चर्चा हुई।

पीएम मोदी ने भारत के पुराने रूख को दोहराया: यूक्रेन-रूस युद्ध पर पीएम मोदी ने भारत के पुराने रूख को दोहराया कि इस विवाद का समाधान कूटनीति व वार्ता से ही हो सकती है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को चुनाव में विजयी होने पर बधाई दी और रूस की जनता के लिए शांति, प्रगति व संपन्नता की कामना की।

टीएम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले 370 से ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब रहेगी। इसके अलावा उन्होंने नामिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर भी बयान दिया। साथ ही उन्होंने विरोधी दलों को आड़े हाथ भी लिया। काशी-मथुरा को लेकर भी बात

की गई। उनसे पूछा गया कि पार्टी का नारा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर आप लोगों ने बनवाया भी। अब नया नारा है अभी ये तो झांकी है, काशी-मथुरा बाकी है.. क्या अगले पांच सालों में ये देखने को मिलेगा?

करोड़ों राम भक्त देख रहे थे भव्य मंदिर का सपना: इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि सारे मामले कोर्ट में हैं, मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी पालमपुर कार्यकारिणी में ये वादा किया गया था कि हम संवैधानिक रूप से राम

मंदिर की राह देखें। हमने कोर्ट का इंतजार किया और उसके बाद संवैधानिक तरीके से राम मंदिर का निर्माण कार्य हुआ। दुनिया में ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या बौद्ध सभी को एक कानून के साथ जीना चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता में कोई दखल नहीं होना चाहिए।

बीजेपी-बीजेडी के गठबंधन पर सस्पेंस बरकरार

टीएम एक्शन इंडिया

भुवनेश्वर: ओडिशा में भाजपा-बीजेड गठबंधन को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अच्छा परिणाम लाएगी। हालांकि, आगामी दिनों में बीजेड के साथ गठबंधन होगा या नहीं उसका निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे। कुछ दिनों में यह स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। अमित शाह दिल्ली में एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में भाग लिए थे। इस समय उनसे



पूछा गया कि ओडिशा में भाजपा और बीजेड के बीच चुनावी गठबंधन हो रहा है या नहीं, इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि ओडिशा में भारतीय

जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है। पहले की तुलना में पार्टी की शक्ति में काफी इजाफा हुआ है। ओडिशा में अगर हम अकेले चुनाव लड़ते हैं तो हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे।

उन्होंने आगे यह भी कहा कि ओडिशा में पार्टी लोकसभा एवं विधानसभा में दोनों में अच्छा प्रदर्शन करेगी। हालांकि, गठबंधन होता या नहीं वह निर्णय हो जाए। इसके बाद यदि गठबंधन होता है तो उसका निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे।

केंद्र ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब

'राजनीतिक विवाद खड़ा करना है याचिका का मकसद'

टीएम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। चुनाव आयुक्तों के चयन में मुख्य न्यायाधीश को शामिल न करने के चलते नियुक्ति रद्द करने की मांग का केंद्र सरकार ने विरोध किया है।

नियुक्ति रद्द करने की मांग का केंद्र ने किया विरोध: केंद्र ने अधिनियम पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदनों का विरोध करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग या किसी अन्य संगठन या प्राधिकरण की स्वतंत्रता का सवाल ही नहीं उठता और यह चयन

सुनवाई


8 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है

निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 चुनाव आयोग की उच्च संवैधानिक संस्था की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए आयोग के कामकाज के लिए, और भी अधिक लोकतांत्रिक और सहभागी वैधानिक तंत्र का निर्माण

करता है।

'चुनाव आयुक्तों की योग्यता पर सवाल नहीं': सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में केंद्र ने कहा कि यह दलील गलत है कि आयोग तभी स्वतंत्र होगा, जब चयन समिति में जज हों। चुनाव आयुक्तों की योग्यता पर सवाल नहीं है। इस याचिका का मकसद सिर्फ राजनीतिक विवाद को खड़ा करना है। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में सीईसी अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को चुनौती दी गई है।

..तो चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते: अमित शाह



चर्चा

8 दोनों नेताओं ने भारत-यूक्रेन साझेदारी को और मजबूत करने पर की चर्चा

के विभिन्न आयामों की भी समीक्षा की, क्षेत्रीय व वैश्विक हालातों पर भी चर्चा हुई।

पीएम मोदी ने भारत के पुराने रूख को दोहराया: यूक्रेन-रूस युद्ध पर पीएम मोदी ने भारत के पुराने रूख को दोहराया कि इस विवाद का समाधान कूटनीति व वार्ता से ही हो सकती है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को चुनाव में विजयी होने पर बधाई दी और रूस की जनता के लिए शांति, प्रगति व संपन्नता की कामना की।

धोखेबाजों के चंगुल में न फँसें



पैसों के लिए फर्ज़ी अनुरोधों से सावधान रहें

- हमेशा फंड अनुरोधों की वास्तविकता को सत्यापित करें
- व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें
- अज्ञात व्यक्तियों को भुगतान न करें

आरबीआई कहता है... डिजिटल पेमेंट सुरक्षित पेमेंट

अधिक जानकारी के लिए, <https://rbikethai.rbi.org.in/dp> पर जाएं इस ऐप पर क्लिक करके देखें के लिए, rbikethai@rbi.org.in को लिखें

जगहिल में जारी भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA www.rbi.org.in

उत्तराखंड : लोकतंत्र के महापर्व पर 1.45 लाख नए मतदाता देंगे आहुति

प्रेस ब्रीफिंग

8 प्रदेश के कुल 83 लाख 21 हजार 207 मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है।



देहरादून संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव सकुशल कराने एवं मतदाता जागरूकता के संबंध में अनेक थीम पर गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश के कुल 83 लाख 21 हजार 207 मतदाताओं को मतदान के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। अब तक 34 लाख 94 हजार मतदाता मतदान की शपथ ले चुके हैं। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने

कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस विगत 25 जनवरी से मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। मतदाता जागरूकता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए विगत 13 फरवरी से एक कलेंडर भी तैयार किया गया है। मतदाता जागरूकता के लिए मेंहदी प्रतियोगिता, रंगोली, स्लोगन लेखन में अब तक 16 हजार गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं। इसमें अभी तक छह लाख 55 हजार मतदाताओं ने प्रतिभाग किया है। लगभग 5700 मैराथन और रैली का आयोजन भी मतदाता जागरूकता के लिए किया गया है,

जिसमें लगभग 72 हजार मतदाताओं ने प्रतिभाग किया है। भाषण और वाद-विवाद प्रतियोगिता के 25 हजार आयोजन किए जा चुके हैं। जनवरी माह में मतदाता पंजीकरण के लिए मिशन मोड में कैंप लगाए गए। अब तक 15 हजार 232 कैंप लगाए जा चुके हैं। नारी निकेतन, वृद्धाश्रम, शिक्षण संस्थानों में मतदाताओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए गए। राज्य में 18 से 19 वर्ष के एक लाख 45 हजार नए मतदाता को जोड़ा गया है, जो प्रथम बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उनके लिए एपिक

कार्ड की डिलीवरी भी कराई जा रही है। बृथ लेवल इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान से मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश-संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी बंसल ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2019 में राज्य में मतदान प्रतिशत लगभग 61.5 प्रतिशत था। इस बार कम से कम 75 प्रतिशत मतदान का लक्ष्य रखा गया है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बृथ स्तर पर जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए बृथ लेवल इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान भी प्रत्येक जनपद में तैयार किया गया है।

ऋषिकेश में अवैध रूप से बिक रही शराब के विरोध में व्यापारियों ने दिया ज्ञापन

ज्ञापन

8 चौक चौराहों पर खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है, जिससे लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है।



ऋषिकेश/टीएम एक्शन इंडिया तीर्थ नगरी में अवैध शराब की बिक्री, ट्रैफिक व्यवस्था और चोरी का मुकदमा एक हफ्ते तक दर्ज ना होने को लेकर नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर कोतवाल से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शहर में बिक रही अवैध शराब को लेकर व्यापारियों ने ऋषिकेश कोतवाल एसएस बिस्ट से कहा कि शहर के हर चौक चौराहे पर खुले आम बिक रही अवैध

लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। इससे वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों ने कई बार पुलिस को इसकी शिकायत भी की परंतु उनका कहना है कि पुलिस सिर्फ खानापूर्ति के लिए यहाँ आती है।

पौड़ी कांग्रेस ने पहले ही तीन कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया था

देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया कांग्रेस ने 16 मार्च को ही तीन से अधिक कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया था, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। यह जानकारी जिला कांग्रेस कमेटी पौड़ी अध्यक्ष विनोद सिंह नेगी बुधवार को दी। पौड़ी अध्यक्ष ने बताया कि संगठन की ओर से 16 मार्च को ही इन लोगों को निकाल दिया था। उन्होंने बताया कि कांग्रेस विरोधी गतिविधियों में शामिल होने तथा लगातार बैठकों में न शामिल होने के कारण चौबट्टाखाल के पूर्व प्रत्याशी केसर सिंह नेगी, पौड़ी विधानसभा के प्रत्याशी नवल किशोर, पौड़ी ब्लॉक प्रमुख दीपक खुगसाल के नाम शामिल हैं, जिन्हें तत्काल निष्कासित कर दिया गया है।

चुनाव हारने के डर से घटिया मानसिकता पर उतर आई भाजपा: गोदियाल

कड़ा प्रहार

8-पौड़ी गढ़वाल लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने भाजपा पर कड़ा प्रहार किया।

देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया पौड़ी गढ़वाल लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने भाजपा पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए भाजपा घटिया मानसिकता पर उतर आई है। भाजपा चुनाव हाथ से खिसकने से डरी हुई है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को कुचलना चाहती है, लेकिन हम उतरने वाले नहीं हैं।



अपने वसूलों से समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर बुधवार को प्रेसवार्ता के दौरान

गढ़वाल उम्मीदवार गोदियाल ने कहा कि इनकम टैक्स की तरफ से 19 मार्च को उन्हें और उनकी पत्नी को तीन नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस

के अनुसार 22 मार्च को निजी रूप से महाराष्ट्र के थाने में हाजिर होना है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इनकम टैक्स और ईडी का खौफ दिखा रही है। गढ़वाल की जनता हमारे साथ है और लोकसभा चुनाव में गढ़वाल की जनता की जीत होगी। उन्होंने कहा कि हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 के बाद से ही उनके विरुद्ध जांच बैठाई गई है।

कांग्रेस को तोड़ने की बात नहीं माने, इसलिए परेशान कर रही भाजपा-

गोदियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के केदारनाथ में लाइव को हमने बीकेटीसी के अध्यक्ष रहने के दौरान रोका था। उस समय मोदी स्वयं भगवान का अवतार बनने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय भाजपा की कांग्रेस को तोड़ने की बात नहीं माने, इसलिए भाजपा परेशान कर रही है।

गंगा प्रहरियों ने देवप्रयाग में गंगा जमुना नदी का किया अवलोकन



ऋषिकेश/टीएम एक्शन इंडिया भारतीय वन्यजीव संस्थान और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तत्वाधान में चल रही, गंगा प्रहरी कानकलेव के सत्र में गंगा प्रहरियों ने दूसरे दिन देवप्रयाग के संगम पर गंगा जमुना अलकनंदा के जल का मौके पर अवलोकन किया।

बुधवार को डेनमार्क के एम्बेसडर मुहाममिद फ्रेडी स्पेन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने गंगा प्रहरियों के कैडर द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि लड़ाई से निकलने वाली सभी नदियां अपनी पवित्रता को लेकर पूरी दुनिया में अलग पहचान रखती हैं।

भाजपा की कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर दलों के नेता पार्टी में आ रहे हैं : भट्ट

देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी नेताओं की कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर कांग्रेस के तमाम नेता कांग्रेस छोड़कर में शामिल हो रहे हैं। भट्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए सभी लोग भाजपा का समर्थन करें और मेरी पहली अपील का इतना असर हुआ कि बदरीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस के एमएलए राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि यह वही राजेंद्र भंडारी हैं जो बदरीनाथ विधानसभा में मुझे हराया था।

शिवालिक नगर शिवमंदिर के अध्यक्ष बने अनिल कुमार माथुर , शशिभूषण महासचिव

हरिद्वार/टीएम एक्शन इंडिया

हरिद्वार के पोंश उपनगर शिवालिक नगर स्थित श्री शिव मंदिर समिति के चुनाव में अनिल कुमार माथुर अध्यक्ष और शशिभूषण पाण्डे महासचिव चुने गए। शिव मंदिर समिति प्रबंध कार्यकारिणी का चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी एलएस रावत और ओपी शर्मा जी को देखरेख में बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ।

पहले समिति के सदस्यों ने 35 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव किया। जिनमें से प्रबंध कार्यकारिणी का चुनाव हुआ जिसमें अध्यक्ष अनिल कुमार माथुर , उपाध्यक्ष



अशोक कुमार मेहता , महासचिव शशि भूषण पांडे , सचिव राम ब्रत कुशवाहा व हरि नाम कटियार, कोषाध्यक्ष पवन कुमार सक्सेना ,संयुक्त सचिव आंकर नाथ शुक्ला

व ज्ञानेश चंद्र ,कार्यकारिणी सदस्य अजय मलिक, जय ओम गुप्ता, धनंजय सिंह परमार , राजीव शर्मा , राम कुमार सिंह और रेखा सिंगल निर्वाचित घोषित हुए।

19 अप्रैल को सुबह सात से शाम पांच बजे तक कर सकेंगे मतदान

लोकसभा चुनाव

8 उत्तराखंड में पांच सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 83,21,207 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया उत्तराखंड में प्रथम चरण में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना चार जून को होगी। उत्तराखंड में पांच सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 83,21,207 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा.



बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रदेश में चुनाव के लिए 11729 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें सभी आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 85 वर्ष

से अधिक आयु और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल वॉलेट से मतदान देने का विकल्प दिया जाएगा। मतदाता 19 अप्रैल को

सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान कर सकेंगे।

20 मार्च को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 27 मार्च तक चलेगी। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी तो 30 मार्च को उम्मीदवार नाम वापसी ले सकेंगे। इसके बाद 19 अप्रैल को चुनाव होगा और चार जून को परिणाम आएंगे।

मतदाताओं पर एक नजर-

पुरुष - 4308904
महिला - 4012006
शुद्ध (18-19) - 145220
थर्ड जेंडर - 297
सर्विस मतदाता- 93357

उत्तराखंड की हरिद्वार सीट पर सरपट दौड़ रही भाजपा, विपक्ष की दौड़ शुरू नहीं

देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया उत्तराखंड की प्रतिष्ठित हरिद्वार लोकसभा सीट पर चुनावी दौड़ में भाजपा अकेले ही सरपट दौड़ रही है। पार्टी के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री ने उनके नाम का ऐलान होने के बाद एक सप्ताह में कई इलाके नाप लिए हैं। विपक्ष का आलम ये है कि उसकी दौड़ अभी शुरू ही नहीं हो पाई है। उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में देरी से कार्यकर्ताओं में मायूसी दिख रही है।



हरिद्वार लोकसभा सीट को भाजपा के वर्चस्व वाली सीट माना जाता है। पिछले दो लोकसभा चुनाव से भाजपा यहाँ पर अजेय है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस ही नहीं, बल्कि सपा भी पूर्व में जीत

दर्ज कर चुकी है। मगर मौजूदा स्थिति में भाजपा का संगठन यहाँ पर सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। दो बार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक की जगह इस बार पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेद सिंह रावत पर दांव खेला है। पूर्व मुख्यमंत्री

और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद बनाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हरिद्वार सीट पर त्रिवेद सिंह रावत के नाम का ऐलान 13 मार्च को हुआ था। इसके बाद से त्रिवेद सिंह रावत हर दिन क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनका हरिद्वार के अलग-अलग इलाकों में कई बार जाना हो चुका है और साधु-संतों से भी वह भेंट कर चुके हैं। विधानसभा वार चुनाव कार्यालय खोलने की शुरुआत वह धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से कर चुके हैं। इस सीट पर चुनाव लड़ने की जैसी स्थिति भाजपा की दिख रही है, कांग्रेस और बसपा की स्थिति इससे एकदम उलट है। उम्मीदवार के नाम पर हो रहे लगातार विलंब से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट

सा रहा है। इस सीट पर पार्टी के दिग्गज हरीश रावत, डा. हरक सिंह रावत, करन माहारा समेत खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के दबाव के कारण अजब सी स्थिति पैदा हो गई है। हरीश रावत खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बल्कि अपने बेटे विवेक रावत के लिए टिकट चाहते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माहारा का नाम भी उछल रहा है, जो कि हरीश रावत को उम्मीदवार देखना चाहते हैं। इन स्थितियों के बीच, पूर्व मंत्री डा. हरक सिंह रावत हैं, जिनकी भाजपा में वापसी की मीडिया में तैरती खबरों के बीच इस सीट पर दमदार दावेदारी है। पार्टी पर दबाव विधायक उमेश कुमार का भी माना जा रहा है।

बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त, दो की मौत

देहरादून/रुद्रप्रयाग/टीएम एक्शन इंडिया

रुद्रप्रयाग जिले के शिव नदी क्षेत्र के पास एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में समा गई। वाहन में सवार दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों का शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक देर रात्रि अपदा कंट्रोल रूम, रुद्रप्रयाग को शिव नदी के पास एक वाहन खाई में दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस ने एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया। उक्त वाहन बोलेरो कैम्पर (यूके-02सीए- 0826) लगभग 700 मीटर गहरी खाई में



घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई शुरू की। टीम की ओर से 01 शव को बरामद कर वैकल्पिक मार्ग से होते हुए मुख्य मार्ग तक लाया गया। जबकि दूसरे व्यक्ति का शव वाहन के नीचे दबा हुआ था। देर रात्रि तक कड़ी मशक्कत करते हुए वाहन को काटकर दूसरे व्यक्ति के शव को निकालकर मुख्य मार्ग तक लाया गया और फिर शव को जिला पुलिस को सुपुर्द किया गया।

मृतकों के नाम दरपान सिंह 53 वर्ष पुत्र भीम सिंह और गंगा सिंह 31 वर्ष पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम जर्था होकारा, जिला पिथौरागढ़।

लोकसभा चुनाव : यूकेडी ने घोषित किए उम्मीदवार

31 लाख रु से अधिक की स्मैक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

घोषणा

8 पार्टी मुख्यालय में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पूर्ण सिंह कटैत ने पत्रकारों की मौजूदगी में उम्मीदवारों की घोषणा की।



देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) ने लोकसभा चुनाव के लिए राज्य के पांच लोकसभा सीटों में से चार लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। टिहरी लोकसभा सीट पर अभी उम्मीदवार का नाम तय नहीं हो पाया है। उम्मीदवारों के नाम तय कर भाजपा चुनाव प्रचार में अन्य दलों से आगे है।

बुधवार को पार्टी मुख्यालय में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पूर्ण सिंह कटैत ने पत्रकारों की मौजूदगी में उम्मीदवारों की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्थानीय और ज्वलंत मुद्दों को लेकर दल जनता के बीच जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से रोजगार, पलायन, मूल निवास, भू-कानून के साथ परियोजनाओं में राज्य की 70 फीसदी हिस्सेदारी सहित अन्य विषय शामिल है। लोकसभा चुनाव को पार्टी दमदार तरीके से लड़ेगी।

उन्होंने बताया कि 04 लोकसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। जबकि टिहरी लोकसभा पर अभी उम्मीदवार का नाम नहीं जारी नहीं किया गया है। पार्टी के लोगों का मंथन अभी चल रहा है। जल्द ही टिहरी उम्मीदवार घोषित हो जाएगा। उन्होंने बताया कि गढ़वाल लोकसभा से आशुतोष नेगी, हरिद्वार

लोकसभा चुनाव के चलते मेडिकल बोर्ड का किया गया गठन

चम्पावत/टीएम एक्शन इंडिया

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत जिला चिकित्सालय चम्पावत में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. केके अग्रवाल की अध्यक्षता में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है।

इस संबंध में जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने कहा कि निर्वाचन में लगे सभी कार्मिकों, जिन्हें किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य आदि से संबंधित समस्या है और निर्वाचन कार्य में उपस्थित होने में समस्या है। ऐसे कार्मिक 21, 22 और 23 मार्च को जिला मुख्यालय में मुख्य चिकित्सालय अधिकारी कार्यालय में स्थापित मेडिकल



बोर्ड की समझ उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना सुनिश्चित करें।

ऊधमसिंह नगर लोकसभा सीट उम्मीदवार तय करना बाकी है। राज्य की स्थानीय पार्टी यूकेडी की ओर से भी आज चार सीटों पर

उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। अब देखना है कि कांग्रेस इन दोनों सीटों पर किस पर दांव खेलती है।



देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया देहरादून की सेलाकुई पुलिस ने 31 लाख रुपये से अधिक की स्मैक के साथ बरेली से आए दो ड्रग पैडलरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 104 ग्राम स्मैक बरामद की गई है।

चेकिंग के दौरान दो आरोपितों को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास मिली स्मैक 31 लाख 40 हजार रुपये

कीमत की है। आरोपित बरेली से सस्ते दामों में खरीदकर स्मैक देहरादून में इंटरस्टीयल एरिया और शैक्षणिक संस्थानों में बेचते थे। आरोपित 20 वर्षीय फुरकान अहमद पुत्र शराफत जावेद और 19 वर्षीय मोहम्मद फरमान पुत्र इलियास हैं।

दोनों के पास से रुपयों के अलावा बैटरी से युक्त इलेक्ट्रिक तराजू बरामद हुए हैं।

एक्स चिकित्सकों ने कन्धे से निकाला 6.6 किलो का ट्यूमर

हैरत

8 मरीज स्वस्थ है और स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। मरीज का इलाज आयुष्मान योजना के तहत किया गया है



बताया कि उसे असहनीय दर्द होता है और उसका हाथ भी नहीं चल रहा है और उसकी त्वचा का रंग भी बदल चुका था। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि उसकी पीठ में कैंसर बन चुका है और उसका आकार असाधारण रूप बड़ा हो रहा है।

ऋषिकेश/टीएम एक्शन इंडिया

एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों ने एक मरीज के कन्धे से 45 सेमी लम्बा और करीब साढ़े 6 किलो का ट्यूमर निकालकर सभी को हैरत में डाल दिया है। मरीज अब स्वस्थ है और अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। मरीज का इलाज आयुष्मान योजना के तहत किया गया है।

उत्तर प्रदेश के मोहम्मद सादिकपुर के रहने वाले एक 37 वर्षीय मरीज की पीठ के ऊपरी हिस्से और कन्धे के निकट एक गांठ (सॉफ्ट टिश्यू साकोर्मा) बन गई थी। धीरे-धीरे कुछ समय बाद इस गांठ में रक्तस्राव के साथ घाव बनने लगा। यह मरीज पहली बार जून 2022 में एम्स अस्पताल आया था, लेकिन फॉलोअप में नियमित तौर से एम्स नहीं आ पाया। फिर 2 साल बाद फरवरी 2024 में एम्स की सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की ओपीडी में आकर मरीज ने अपनी परेशानी बताई।

इन 2 वर्षों के दौरान मरीज के कंधे की गांठ का साइज बहुत बढ़ गया और इसकी वजह से उसके हाथ और कंधे ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। बीते माह फरवरी में एम्स पहुंचने पर रोगी ने डॉक्टरों को

सर्जरी करने वाली टीम में डॉ. अमित गुप्ता के अलावा डॉ. मरेश्वर, डॉ.निर्भय, डॉ. अजित और डॉ. विवेक शामिल थे। जबकि एनेस्थीसिया टीम से डॉ. भावना गुप्ता, डॉ. केदार और डॉ. राधेश्याम का सहयोग रहा।

चिकित्सा अधीक्षक प्रो. संजीव कुमार मित्तल ने सर्जरी करने वाले डॉक्टरों की टीम की प्रशंसा की और कहा कि विशालकाय ट्यूमर निकालकर एम्स के चिकित्सकों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

"कैंसर के इलाज में देरी करने पर यह बहुत घातक होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि चिकित्सीय परामर्श के अनुसार रोगी को नियमित तौर पर फॉलोअप के लिए अस्पताल आना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के इलाज को बीच में छोड़ना हमेशा नुकसानदेह होता है। प्रत्येक कैंसर जानलेवा नहीं होता लेकिन इसके लक्षणों के प्रति जागरूक रहकर समयबद्ध इलाज कराकर इसे जीता जा सकता है।"

-प्रोफेसर मीनू सिंह, कार्यकारी निदेशक, एम्स ऋषिकेश।

डॉक्टर अमित गुप्ता ने बताया कि एम्स में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की ओपीडी प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होती है। उन्होंने बताया कि एम्स में सभी प्रकार के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है।

कालेज से घर जा रहे मोटर साइकिल सवार युवक की मौत

देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया

कालेज से घर जा रहे मोटर साइकिल सवार युवक को सामने से तेज गति से आ रही कार ने टक्कर मार दी। इसमें युवक की मौत हो गयी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के मामा ने राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। नया गांव हाथी बड़कला निवासी रोहित वर्मा ने बताया कि उसका भांजा अभिनव कुमार खड्का पुत्र अरुण कुमार अपने मोटर साइकिल से अपने कालेज आईएमएस से अपने घर तुनोवाला जा रहा था। सामने से तेज गति से आ रही कार मारुति सुजुकी ने सामने से उनके भांजे के वाहन को टक्कर मार दी।

विभिन्न दलों के उम्मीदवार 27 मार्च तक कर सकेंगे नामांकन

नोटिफिकेशन

8 नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिफिकेशन जारी किया।



रुद्रपुर (उधम सिंह नगर)/टीएम एक्शन इंडिया नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिफिकेशन जारी किया। इसके साथ ही बुधवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नामांकन कक्ष में अपना पचा दखिल कर सकेंगे। सुरक्षा के लिहाज से पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में भारी संख्या में

सकेंगे। प्रशासन ने निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से निबटाने की पूरी रणनीति बना ली है। पूरे परिसर में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। एसएसपी मंजू नाथ टीसी ने अपने सहयोगियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार आरटीओ कार्यालय के निकट स्थित जिलाधिकारी परिसर के गेट तीन से प्रवेश कर सकेंगे और नामांकन कक्ष के 100 मीटर के भीतर सिर्फ अधिकृत व्यक्ति ही आ सकते हैं। जबकि नामांकन कक्ष में उम्मीदवार के साथ 10 प्रस्तावक रह सकते हैं।

भाजपा नेत्री के अहाते में आया गुलदार

वन्य जीव

8 तल्लीताल में इंद्रा कॉटेज क्षेत्र में एक वयस्क विशाल आकार का गुलदार दिखायी दिया है।



नैनीताल/टीएम एक्शन इंडिया वन्य जीव लगातार मानव बस्तियों में नजर आ रहे हैं। अब नैनीताल के तल्लीताल में इंद्रा कॉटेज क्षेत्र में एक वयस्क विशाल आकार का गुलदार दिखायी दिया है। यह वन्य जीव भाजपा महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष कविता गंगोला के घर के बाहर टहलता हुआ कैमरे में कैद

हुआ है। यह घटना 20 मार्च की रात्रि 1 बजकर 46 मिनट की है। कैमरे में वयस्क गुलदार बेहद खामोशी से सीढ़ियों से अहाते में आता है और मौका देखकर

प्रधानमंत्री सहित बड़े केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड दौरे को तैयारियां शुरू : महेंद्र भट्ट

चुनाव

8 भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है।



देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसको लेकर पार्टी ने प्रधानमंत्री सहित बड़े केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश संगठन ने चुनाव के लिए बड़े केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम और स्थान तय कर दिए हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि राज्य के लिए केंद्रीय नेतृत्व स्तर पर स्टाफ प्रचारक की सूची में प्रमुख नेता शामिल हों, इस आशय का अनुरोध केंद्र को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि एक-दो दिन में ही स्टाफ प्रचारकों की सूची तय होने के साथ-साथ कौन नेता किस दिन आ रहा है इसकी तिथि जारी कर दी जाएगी।

उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियों ने तैयारियां

शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसको लेकर पार्टी ने प्रधानमंत्री सहित बड़े केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हमने अपने राज्य के लिए केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह किया है कि लोकसभा स्तर पर स्टाफ प्रचारक सूची में केंद्रीय नेतृत्व की अधिकतम संख्या प्राप्त हो।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, योगी आदित्य जैसे अनेक नाम हैं, जो केंद्र को भेजे गए हैं। इसको लेकर एक दो दिन में स्टाफ प्रचारकों की सूची केंद्र से जारी कर दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हमने लोकसभा क्षेत्रों में कहाँ पर किस नेता की सभा होनी है, उसको लेकर भी कार्यक्रम और स्थान तय कर दिए हैं।

व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने से पूर्व की सर्वे करने की मांग

टनकपुर/टीएम एक्शन इंडिया व्यापार मंडल ने रेलवे स्टेशन के निकट अतिक्रमण में कार्रवाई को लेकर पहले सर्वे करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में एसडीएम के माध्यम से डीएम को ज्ञापन भेजा है।

बुधवार को नगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष वैभव अग्रवाल के नेतृत्व में एसडीएम आकाश जोशी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में पड़ने वाले वाई 2 नं तीन और चार में कई व्यापारियों की दुकानें हैं, जो पिछले 50 सालों से यहाँ पर दुकान लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं।

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित

नैनीताल/टीएम एक्शन इंडिया

कुमाऊं विवि के कुलपति प्रो. दीवान रावत ने बीती 3 से 6 मार्च के बीच स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मानपुर-नागपुर में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय महिला एवं पुरुष सीनियर मिनी गोल्फ चैंपियनशिप में उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व कर राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले कुमाऊं विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में योगेश पांडे, मयंक सुंदरियाल, संजय भट्ट, चेतन भट्ट, मनदीप सिंह, सुमित मेहता, अभय बिष्ट, तेजस्वी कुमार, तुषार भंडारी, सुनील, दीपक अधिकारी, पवन बिष्ट, वैशाली पांडे, प्रगति दुम्का, कशिश शर्मा, श्वेता भाकुनी, अंजलि



गंगवार, भावना पांडे, कामिनी, सुपमा मेहरा, मनजोत कौर, दिया उप्रेती व दिया महर को आमंत्रित कर कुलपति ने सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रो. रावत ने विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्वल भविष्य की कामना की और उन्हें और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्र और खिलाड़ी बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। उन्हें जब भी अवसर मिलता है, वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके न केवल विश्वविद्यालय बल्कि प्रदेश का भी नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन

करते हैं। विश्वविद्यालय के क्रीडा अधिकारी डॉ.नागेंद्र शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम की ओर से खेलते हुए कुमाऊं विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक प्राप्त किये। बताया कि इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तराखंड की टीम ने पुरुष वर्ग में द्वितीय तथा महिला वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर कुलसचिव दिनेश चंद्रा, परीक्षा नियंत्रक डॉ.महेंद्र राणा, उप कुलसचिव डॉ.संजीव आर्य, उप कुलसचिव दुर्गा शर्मा, रुद्रपुर महाविद्यालय के डॉ.राजेश कुमार, हल्द्वानी के डॉ.सुरेंद्र नेगी, डीएसबी परिसर के डॉ.संतोष कुमार, जनार्दन जोशी और क्रीडा विभाग के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे।

निर्वाचन कर्मियों को दिया गया ईवीएम का व्यावहारिक प्रशिक्षण लोहाघाट में रंगोत्सव का शानदार आगाज

चम्पावत/टीएम एक्शन इंडिया

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में लगाये गये कार्मिकों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन बुधवार को राजकीय बालिका इंटर कालेज में मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रभारी अधिकारी कार्मिक/मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह ने कार्मिकों के प्रथम प्रशिक्षण के दौरान कहा की निर्वाचन में लगे सभी कार्मिक निर्वाचन को एक उत्सव मानकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से करें। निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण दायित्व को बेहद सजीदगी तथा कुशलता से करें। इस पर गर्व करें की हम सभी निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया में भाग ले रहे



हैं। उन्होंने कहा की ईवीएम के संबंध में गहनता और बारीकी से समस्त जानकारी प्राप्त कर लें। कोई दुविधा होने पर निःसंकोच जानकारी प्राप्त करें। ताकि मतदान दिवस को जनपद में पारदर्शिता के साथ मतदान संपन्न कराया जा सके। उन्होंने बताया कि मतदान प्रक्रिया 19 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होकर शाम 5 बजे तक चलेगी। प्रशिक्षण के तृतीय दिवस में सखी बूथ, यूनिट बूथ, दिव्यांग बूथ और युवा बूथ के कार्मिकों को मास्टर ट्रेनरों ने सैद्धांतिक व ईवीएम का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। मास्टर ट्रेनरों ने सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट, पीठासीन/मतदान अधिकारियों को मतदान प्रारम्भ होने से लेकर मतदान की समाप्ति तक के सम्बन्ध में विधिवत प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान बताया कि मांक पोल कराने के बाद कण्ट्रोल यूनिट को क्लियर अवश्य करें और वीवीपैट के ड्राप बाक्स में गिरी मांक पोल की पर्ची को निकाल कर उसके पीछे मुहर लगाकर इसे काले लिफाफे में रखकर सील करेंगे फिर

इसे प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर पिंक पेपर से सील करेंगे। मास्टर ट्रेनर ने ईवीएम/वीवीपैट के कनेक्शन पर चर्चा करते हुए बताया कि बैलेट यूनिट को वीवीपैट से वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिन कुल 387 कार्मिकों में से 383 कार्मिक उपस्थित रहे। 4 कार्मिक अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित कार्मिकों से स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट, सहित मास्टर ट्रेनर डॉ. एमपी जोशी, पीसी उपाध्याय, जीवन कलौनी, नीरज पांडे और प्रशिक्षण के लिए नामित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

लोहाघाट (चंपावत)/टीएम एक्शन इंडिया

लोहाघाट में श्रीराम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी के तत्वावधान में बारहवां होली रंग महोत्सव का शानदार आगाज किया गया। दो दिनी महोत्सव को लेकर होल्यारों में गजब का दिखा। पहले दिन शहरी क्षेत्र की महिलाओं के अलावा कोलीडेक, फोर्ती और बिशुंग के होल्यारों ने होली गायन का अद्भुत नजारा पेश किया। कोलीडेक से आई महिलाओं की होली सराहनीय रही।

रामलीला मैदान में रामलीला कमेटी के अध्यक्ष जीवन मेहता और नरेश राय के संचालन में हुए महोत्सव का शुभारंभ कमेटी के



संरक्षक प्रहलाद सिंह मेहता, डीडी पांडेय, गोविंद वर्मा, राजेश चौबे, मनीष जुकरिया, सुभाष बगौली और सीएस बगौली ने किया। अतिथियों ने महोत्सव को नशा मुक्त रखकर विभिन्न गांवों के होल्यारों को एक मंच में लाने की पहल की सराहना की। कार्यक्रम में नगर की महिलाओं ने हरि धरें मुकुट खेलें होली से कार्यक्रम का श्रीगणेश किया। कोलीडेक की महिला होल्यारों ने

महाराजा हरीश चंद्र भये दानी होली, आब आगो रंगीलो चैता, ला मेरी साडी में जानू मैता- झोड़े की शानदार प्रस्तुत दी। फोर्ती के होल्यारों ने -अच्छ हां रे गिरधर राज भयो कंसापुर को, मधुरा पड़ गई रार गिरधर राज भयो कंसापुर को होली गीत का प्रदर्शन किया। कर्णकरायत बिशुंग की महिला होल्यारों ने ऐसे निमोही दशरथ राजा, ऐसा ना देखो दशरथ राज और सती जन कर दी जायेगी। अतिथियों ने महोत्सव को नशा मुक्त रखकर विभिन्न गांवों के होल्यारों को एक मंच में लाने की पहल की सराहना की। कार्यक्रम में नगर की महिलाओं ने हरि धरें मुकुट खेलें होली से कार्यक्रम का श्रीगणेश किया। कोलीडेक की महिला होल्यारों ने

न्यूज फ्लैश

बैंक आडिट पर सेमिनार आयोजित

चंडीगढ़: चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) समुदाय के राष्ट्रीय व्यापी सर्वोच्च संघ - डी इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया (आईसीएआई) की चंडीगढ़ शाखा ने होटल शिवालिकक्यू में बैंक सेमिनार पर आडिट की मेजबानी की। इस सेमिनार में चंडीगढ़ ट्राईसिटी के लगभग 200 सीए ने भाग लिया। नई दिल्ली स्थित आईसीएआई की आडिटिंग एंड ऐशयोरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने इस सेमिनार का आयोजन किया। आईसीएआई चंडीगढ़ के चेयरमैन सीए अभिषेक सिंह चौहान के अनुसार अपने साथी सीए सदस्यों को सरकार द्वारा समय समय पर बैंकिंग परिदृश्य में लाये जा रहे संशोधनों के बारे में सरल तरीके से समझाना आईसीएआई की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सेमिनार का उद्देश्य सीए सदस्यों को और अधिक सशक्त बनाना था ताकि वे समाज और व्यापार को बेहतर तरीके से सेवा प्रदान कर सकें। यूनिवर्सल बैंक आफ इंडिया के जनरल मैनेजर अरुण कुमार इस अवसर पर मुख्यातिथि थे जबकि पूर्व चेयरमैन - सीए बुज भूषण शर्मा और सीए मस्तान सिंह चबियाल गेस्ट आफ आनर के रूप आमंत्रित हुये जिन्होंने प्रतिनिधियों को संबोधित विषय पर गहनता से परिचित करवाया।

गेस्ट स्पीकर्स - सीए आस्था गुप्ता, सी परवीन कुमार और सीए लोकेश गुप्ता आडिट आफ लोन्स एंड एडवाइस, प्लानिंग आफ बैंक आडिट एंड डायरेक्टिंग, आईआरपीसी नाम और लॉग फार्म ऑडिट रिपोर्ट आदि विषयों पर प्रकाश डाला। सेमिनार का अंत सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर देकर हुआ जिसमें सभी ने अपने भ्रम मिटाये।

क्रोमा पेश कर रहा है गर्मियों की सेल 2024 के तहत शानदार ऑफर!

गजियाबाद। क्रोमा ने अपने गर्मियों की सेल अभियान की घोषणा की है जो मई 2024 तक जारी रहेगा। गर्मी की शुरुआत के साथ, यह बहुप्रतीक्षित गर्मियों की सेल ग्राहकों के लिए अपने घरों को बढ़ते तापमान से बचाने और शानदार डील तथा भुगतान में आसानी के साथ ताजतरीन उपकरणों से लैस करने का सही अवसर प्रदान करती है। उपभोक्ताओं को स्टोर और क्रोमा.कॉम पर 1.5 टन रिफ्लैट एसी की कीमत बस 1,500 रुपये से शुरू होगी। ग्राहक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ला सकते हैं और नया एसी घर ले जा सकते हैं। ग्राहक आकर्षक एक्सचेंज और अपग्रेड विकल्प, कैशबैक ऑफर और 24 महीने तक की लचीली ईएमआई योजनाओं के साथ 250+ एयर कंडीशनर, 300+ रेफ्रिजरेटर, रूम कूलर और पंखों की व्यापक रेंज पर 45,000 रुपये तक के लाभ और अन्य फायदों का आनंद ले सकते हैं। इस ऑफर में इन्वर्टर रिफ्लैट एसी शामिल हैं जिनकी कीमत केवल 24,990 रुपये से शुरू होती है, जो आपके घर को ठंडा और आरामदायक रखने का एक किफायती तरीका प्रदान करते हैं, और एसी पर 6500 रुपये तक का एक्सचेंज लाभ भी है। रूम कूलर की कीमत 4,500 रुपये से शुरू होती है, जो कम कीमत पर टैंक पाने की तलाश करने वालों के लिए आदर्श है। प्रीमियम कुलिंग में रुचि रखने वालों के लिए, एलजी आईएनवी/एसी 1.5 टन 5-स्टार एसी, जिसकी मूल कीमत 91,990 रुपये थी, अब केवल 53,490 रुपये में उपलब्ध है, जिससे 45,000 रुपये तक की बचत होगी। इसके अतिरिक्त, बजाज पीएमएच 18 डीएलएक्स रूम कूलर अब 4,500 रुपये में मिलेगा है, जो उच्च गुणवत्ता वाली कुलिंग को अधिक सुलभ, सुविधाजनक और किफायती बनाता है। ग्राहक रेफ्रिजरेटर पर 24 महीने तक की आसान ईएमआई का भी लाभ उठा सकते हैं, जिससे आपके रसोई उपकरणों को अपग्रेड करना पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा।

मेयर निखिल मदान ने शहरवासियों को दी फाल्गुन एकादशी की बधाई

श्याम प्रेमियों द्वारा बाबा धाम कामी रोड से खाटू श्याम सोनीपत धाम तक निकाली गई भव्य निशान यात्रा

टीम एक्शन इंडिया

सोनीपत: नगर निगम मेयर निखिल मदान ने बुधवार को समस्त श्याम भक्तों को फाल्गुन एकादशी की शुभकामनायें दीं। इस पावन अवसर पर उन्होंने श्याम बाबा के चरणों में नमन किया। साथ ही श्री खाटू श्याम मंदिर के श्याम प्रेमियों द्वारा आयोजित फाल्गुन एकादशी निशान यात्रा में हिस्सा लिया और श्याम प्रभु के जयकारे लगाए। बुधवार को श्याम प्रेमियों द्वारा शहर के कामी रोड पर स्थित बाबा धाम से लेकर रोहतक रोड स्थित खाटू श्याम सोनीपत धाम तक निशान यात्रा निकाली गई। जिसमें हजारों श्याम प्रेमियों ने निशान ध्वज उठाकर हिस्सा लिया। निशान यात्रा में श्रद्धालुओं द्वारा शिव पार्वती एवं अन्य



मनमोहक झाकियां भी निकाली गईं। मेयर निखिल मदान ने बताया की श्याम बाबा कलयुग के भगवान हैं और वो सच्चे मन से पूजने वाले अपने हर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। खाटू श्याम बाबा की भगवान श्री कृष्ण का वरदान है जिसके चलते वो हर घर में पूजे जा रहे हैं। खाटू श्याम बाबा हारे का सहारा है और हर कमजोर व्यक्ति की रक्षा करते हैं। कार्यक्रम में अनुज मंगला, राजीव गोयल, राकेश मित्तल, संजीत दहिया, परवीन मित्तल, आनंद सरोहा, सुमित मित्तल, तरुण गौतम, पवन दहिया, प्रवीण दहिया, प्रेम रोहिल्ला, रमेश मंगला, राहुल वर्मा, नीरज सैनी, गौरव रोहिल्ला, कमल गोयल, सचिन वर्मा, दीपक जैन, पंकज बंसल, मोहित गोयल, अनुज मित्तल, दीपक वर्मा, प्रदीप वर्मा, धर्मवीर भारद्वाज, प्रवीण वर्मा, शिव कुमार वर्मा, आदि लोग मौजूद रहे।

विधायक महिपाल डांडा को मंत्री बनाए जाने पर जश्न का माहौल

कमाल हुसैन

पानीपत: ग्रामीण के विधायक महिपाल डांडा को हरियाणा सरकार में मंत्री पद दिए जाने का समाचार सुनते ही जिला पानीपत के सभी विकास खंडों के ग्रामीण ने जगह-जगह लड्डू बांट कर खुशी मनाई ' उल्लेखनीय है कि बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद पानीपत जिला को हरियाणा सरकार में मंत्री का स्थान मिला है ' पानीपत जिला के गांव सिवाह में महिला सरपंच सुनीता आर्या और आर्य बाल भारतीय पब्लिक स्कूल पानीपत के प्रधान रणदीप आर्य ने गांव में लड्डू बांटकर खुशी मनाई प्रधान रणदीप आर्य ने कहा कि लोकतंत्र में जनता और सरकार के बीच कोई सीमा रेखा नहीं होती। विधायक महिपाल डांडा ने इसी सिद्धांत पर चलते हुए अपने घर के द्वारा 24 घंटे जनता के लिए खुले रखे हैं' जिसके कारण उनकी लोकप्रियता की चर्चा पूरे हरियाणा में हो



रही है और आज उनकी लोकप्रियता का ही इनाम है कि इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है' रणदीप आर्य ने कहा कि अब किसान और कैमरा वर्ग की समस्याओं का समाधान और तेजी से होगा वही विकास कार्यों को भी विशेष गति मिलेगी।

बगैर मान्यता के चल रहे छह स्कूलों को नोटिस

गनौर

क्षेत्र में चल रहे बगैर मान्यता के चल रहे स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। बिना मान्यता चल रहे स्कूलों को पता लगाने के लिए खंड शिक्षा विभाग की तरफ से कमेटी बनाई गई। जिसके बाद क्षेत्र के 6 स्कूलों को चिह्नित किया गया, जो बिना मान्यता के चल रहे थे। खंड शिक्षा विभाग की तरफ से इन सभी स्कूल संचालकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी सतीश शर्मा ने बताया कि जांच में ऐसे स्कूल सामने आए जिनके पास शिक्षा विभाग से मान्यता ही नहीं थी। मानकों को ताक पर रखकर यह स्कूल काफी समय से संचालित हो रहे थे। इसके अलावा 1 स्कूल के पास मान्यता तो थी लेकिन वह मान्यता से ऊपर की कक्षाएं संचालित कर रहा था।

सेंट जोसेफ स्कूल में धूमधाम से मनाया स्नातक समारोह

मनीष कुमार

अम्बाला: अंबाला शहर स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में यू के जी के बच्चों के लिए स्नातक समारोह का आयोजन किया गया। यू के जी के नन्हे - नन्हे कर्णधारों को विद्या के आगामी क्षेत्र में कदम रखते हुए देखने के लिए उनके अभिभावक विद्यालय के प्रांगण में एकत्रित हुए। कार्यक्रम का आगाज डायरेक्टर मैडम श्रीमती किरण बैनर्जी, डिप्टी डायरेक्टर आशिमा किरण बैनर्जी, प्रधानाचार्या महोदया श्रीमती भावना छिब्बर द्वारा पवित्र ज्योति को प्रज्वलित करके किया गया। इसके पश्चात् एल के जी के नन्हे - नन्हे जोसेफियन ने अपनी अद्भुत नृत्य कला द्वारा सबका मन मोह लिया। छोटे छोटे जोसेफियन अपने अनोखे अंदाज व



आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर आए और अपनी अपनी डिग्री ग्रहण की। डिप्टी डायरेक्टर मैडम आशिमा किरण बैनर्जी एवं प्रधानाचार्या महोदया भावना छिब्बर के मार्गदर्शन में इन बच्चों में आया आत्मविश्वास व व्यक्तित्व का निखार वाकई प्रशंसनीय है। अंत में डायरेक्टर मैडम

गांव जटेड़ी में अफ्रीकन देशों के 30 नागरिकों का दल पहुंचा



राई। राई हल्के के गांव जटेड़ी में भारत सरकार के आईटी विभाग के अधिकारियों का विदेशी करीब 15 अलग- अलग अफ्रीकन देशों के 30 नागरिकों का दल पहुंचा। दल ने जब गांव जटेड़ी की गलियों में अन्य कार्यों का निरीक्षण किया तो विकास कार्यों से प्रभावित होकर गांव के सरपंच युवा भाजपा नेता योगेश की बहुत ही अच्छे काम बताते हुए सराहना की। सरपंच योगेश ने डेलीगेशन व भारत सरकार के अधिकारियों को पूरे गांव का भ्रमण करवाया व अलग अलग लोगों से मिलवाया। डेलीगेशन ने गांव के बड़े बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं व स्कूल के बच्चों से विशेष बातचीत की व पंचायत द्वारा की जा रहे डिजिटल भारत मिशन के कार्यों जैसे ई पेमेंट, ई प्लानिंग, ग्राम दर्शन पोर्टल, सीएससी सेंटर, पर विस्तार रूप से चर्चा हुई। बुजुर्गों ने बुढ़ापा पेंशन के बारे में बताया कि अब सीधा बैंक खाते में आती है, गांव के बुजुर्गों ने पेंशन को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया। डेलीगेशन ने गांव की बात (मासिक ग्रामसभा) जटेड़ी की भी बहुत सराहना की व अधिकारियों ने इसे डेमोक्रेसी का मूल बताया। पंचायत सचिव सुरेंद्र व अमित ऑपरेंटर ने पंचायत में डिजिटल भारत मिशन के योगदान पर एक प्रेजेंटेशन दी। इस मौके पर सचिव कपिल, मनीष, महेंद्र, जितेंद्र, जितिन ऑपरेंटर, धन सिंह व स्कूल स्टाफ मौजूद था।

पुलिस को मिली सफलता: बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी की 3 बाइक बरामद एंटी व्हीकल थेट पुलिस की टीम ने फ्लौरा चौक पर एक शांति बाइक चोर को चोरी की बाइक सहित गिरफ्तार किया

कमाल हुसैन

पानीपत: एंटी व्हीकल थेट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर संदीप ने बताया कि उनकी टीम को मंगलवार देर शाम गश्त व जांच पड़ताल के दौरान गुप्त सूचना मिली की सँगिथ किस्म का एक युवक स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर फ्लौरा चौक के पास घूम रहा है। बाइक चोरी की होने की संभावना है। टीम ने मौके पर दृष्टि देकर युवक को काबू कर पूछताछ की तो उसने अपनी पहचान खालिद पुत्र राफा निवासी मुंडेठ मुजफ्फरनगर यूपी हाल विधानंद कॉलोनी के रूप में बताई। बाइक के कागजात दिखाने के लिए कहा तो युवक बहाने बाजी



करने लगा। टीम द्वारा गहनता से पूछताछ करने पर आरोपी ने उक्त बाइक 13 मार्च को वीर नगर में फैंक्टरी के बाहर से चोरी करने बारे स्वीकारा। बाइक चोरी की उक्त वारदात बारे थाना चांदनी बाग में संजय पुत्र ताराचंद निवासी गुडमंडी की शिकायत पर अभियोग दर्ज है।

कबूला जुर्म 8 पूछताछ करने पर आरोपी ने उक्त बाइक 13 मार्च को वीर नगर में फैंक्टरी के बाहर से चोरी करने बारे स्वीकारा

सब इंस्पेक्टर संदीप ने बताया कि गहनता से पूछताछ में आरोपी ने उक्त वारदात के अतिरिक्त अलग अलग स्थान से और दो स्प्लेंडर बाइक चोरी करने बारे स्वीकारा। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरीशुदा उक्त दोनों बाइक आरोपी के घर से बरामद कर,

बाइक मालिक की पहचान ना होने पर दोनों बाइक को 102 सीआरपीसी के तहत कब्जा पुलिस लिया गया। सब इंस्पेक्टर संदीप ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया वह नशा करने का आदी है। इसके साथ ही उसको बाइक चलाने का शौक है। नशे की लत व बाइक चलाने का शौक पूरा करने के लिए आरोपी ने बाइक चोरी की उक्त वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की तीन बाइक बरामद कर पूछताछ के बाद बुधवार को आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से उसे न्यायिक हिरासत जेल भेजा गया।

'देश व प्रदेश में फिर से तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी'

कमाल हुसैन

पानीपत: पानीपत ग्रामीण हलके के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय जैन ने हल्के के गांव गढ़ी सिकंदरपुर व रामपुरा कॉलोनी में जनसभा को संबोधित किया और लोगों को 24 मार्च दिन रविवार को सुबह 11:00 बजे सेक्टर 13 -17 नजदीक हैलीपैड में नवनिर्वाचक कार्यालय व होली मिलन समारोह का न्योता दिया इस अवसर पर बोलते हुए विजय जैन ने कहा है कि देश व प्रदेश में फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी



उद्घाटन अवसर पर ज्यादा से ज्यादा ज्यादा संख्या में पहुंचकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और यह कार्यालय लोगों की

समस्याओं को सुनने के लिए बनाया गया है। सभी से अपील है कि वह समय पर पहुंच कर- के मेरा हौसला बढ़ाएं इस अवसर पर गांव के पूर्व सरपंच राममहेश कश्यप, ब्लॉक समिति के मेंबर राजू कश्यप, जय सिंह यादव, धर्मेश यादव, बलदेव अरोड़ा हनुमान, ब्राह्मण नेता शिव कुमार शर्मा, जय भगवान नंबरदार, राजेश ठेकेदार, दिनेश अग्रवाल, संजय जैन, पानीपत ग्रामीण विकास मोर्चा के अध्यक्ष सतपाल राणा, विकास राणा, व गांव के सम्मानित लोग मौजूद रहे।

महीपाल डांडा के मंत्री बनाए जाने की घोषणा के बाद शुरु हुआ जश्न का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा

कमाल हुसैन

पानीपत: पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल डांडा को राज्यमंत्री बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। मंगलवार को महिपाल डांडा के मंत्री बनाए जाने की घोषणा के बाद शुरु हुआ जश्न का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कड़ी में आज नूवाला की गोती राम कालोनी में श्री विश्वकर्मा पंचाल सभा के प्रधान ईशम कुमार पंचाल ने कालोनी में लड्डू बांटकर खुशी मनाई। भाजपा नेता ईशम पंचाल ने कहा कि विधायक महिपाल डांडा मिलनसार व ईमानदार छवि के



नेता हैं। यही वजह है कि वह पानीपत ग्रामीण विधानसभा से लगातार दो बार विधायक बन चुके हैं। अब पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाकर क्षेत्र में पार्टी का जनधार ज्यदा बढ़ाने का काम किया है। इस अवसर पर रविंद्र मंडावर, बिजेंद्र

पंचाल, बिल्लू सैनी, तरुण तावड़ा, लखन, राजेश सैनी, विकास रोड, सनी मारकंडे, नीरज पंचाल, राजीव कुमार, सत्येंद्र कुमार, गुलाब खान, अमित तावड़ा, गौतम, राजपाल, अंकित व सौरव आदि प्रमुख से शामिल रहे।

नशे से पनपते ही शरीर में भयंकर रोग: डॉ. ललित वर्मा

कमाल हुसैन

पानीपत: जिला स्तरीय जूनियर रैडक्रास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पानीपत के प्रांगण में किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में जिला पानीपत के 16 स्कूलों से 121 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। शिविर के तीसरे दिन की शुरुआत सचिव गौरव रामकरण की अध्यक्षता में रैडक्रास वंदना के साथ की गई। प्रतिभागियों ने बताया कि उन्हें उक्त शिविर में बहुत ही अधिक सीखने को मिल रहा है, जिससे उनकी जिंदगी में सदा अहम उन्नत रहेगा। स्वास्थ्य विभाग पानीपत की तरफ से मुख्य वक्ता मैटल हैल्थ, ड्रग एडिक्सन, स्कूल हैल्थ व टी.बी.



रोग के नोडल अधिकारी डा0 ललित वर्मा द्वारा प्रतिभागियों को नशे से दूर रहने बारे जागरूक किया गया। मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने का मुख्य कारण नशा है और नशा हमारी युवा पीढ़ी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार के नशे बीड़ी, सिंगरेट, तंबाकू, शराब गुटखा, ड्रग, नशीले टीके आदि से होने वाले नुकसान बारे अवगत करवाते हुये कहा कि हम इच्छा शक्ति से नशा का मात दे सकते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों को संक्रमण रोगों से बचने हेतु विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।

उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य देश को टी.बी. मुक्त बनाना है। उन्होंने प्रतिभागियों को मुंह के कैंसर के प्रति भी जागरूक किया। उन्होंने प्रतिभागियों को नशे से दूर रहने, टी.बी. के बचाव व मुंह के कैंसर के प्रति जागरूकता हेतु शपथ भी दिलवाई। स्वास्थ्य विभाग, पानीपत से डा0 हरिश जूनेजा, दंत चिकित्सक ने बच्चों को दांतों की सफाई व ब्रश के प्रयोग बारे जानकारी प्रदान की और सभी बच्चों के दांतों का चैक किया। विशेष तौर पर पधारी डा0 मिसका शर्मा, दंत चिकित्सक द्वारा भी दांतों के चैकअप में सहयोग किया गया। मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डा0 मोना ने बच्चों को जानकारी प्रदान करते हुये कहा कि नकारात्मक सोच का

व्यक्ति कई बार अपना नुकसान करने बारे भी सोचता है, इसलिये हमें हमेशा सोच को सकारात्मक रखना है और उसी सोच के साथ आगे बढ़ना है। डा0 पूजा, चमड़ी रोग विशेषज्ञ ने प्रतिभागियों को चमड़ी के रोगों के कारणों व उनसे बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया और कहा कि हमें अपने शरीर की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिये खासकर लड्डूकियों/महिलाओं को, ताकि हमें चमड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी ना हों। सचिव गौरव रामकरण, शिविर निदेशक हरमेश चन्द व अन्य कार्डसलर द्वारा आये हुये अतिथियों को स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

राजेंद्र कौशिक फिर बने भारत विकास परिषद गन्नौर शाखा के अध्यक्ष

टीम एक्शन इंडिया

गन्नौर: भारत विकास परिषद गन्नौर शाखा द्वारा जौटी रोड पर होली परिवार मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होली मिलन कार्यक्रम में बच्चों ने नृत्य, चौपाई व कविता प्रस्तुत की। फूलों द्वारा खेली गई होली में महिलाओं, बच्चों, पुरुषों सभी ने होली का मंगल मिलन खुशियों के साथ मनाया। इस दौरान भाविव संपर्क के प्रांतीय उपाध्यक्ष योगेश कौशिक ने चुनाव प्रक्षेपक की भूमिका निभाते चुनाव करवाया। जिसमें दोबारा से अध्यक्ष का दायित्व राजेंद्र कौशिक को सौंपा गया। सचिव का दायित्व एडवोकेट



अंकित त्यागी और कोषाध्यक्ष का दायित्व अमित जिंदल, महिला संयोजिका दायित्व मनीषा जैन को दिया गया। सचिव एडवोकेट अंकित त्यागी ने अपने पूरे साल की बैठकी और कार्यक्रमों की रिपोर्ट भी पेश की। प्रांतीय उपाध्यक्ष योगेश कौशिक ने बताया कि रोहतक में हुए भाविव प्रांतीय अधिवेशन में गन्नौर शाखा के सचिव एडवोकेट अंकित त्यागी को उत्कृष्ट सचिव सम्मान से नवाजा गया।

24.75 करोड़ के मिचेल स्टार्क को रिंकू सिंह ने जड़ा झन्डाटेदार सिक्स, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली एजेंसी आईपीएल 2024 के लिए सभी टीमों ने तैयारी कर रखी है। नेट सेशन और प्रैक्टिस सेशन के बाद अब इंटर स्कॉड मैच टीमों के जरी है। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने भी मंगलवार 19 मार्च को इंटर स्कॉड मैच आयोजित किया। इस दौरान बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने अपनी ही टीम के 24.75 करोड़ रुपये के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को झन्डाटेदार सिक्स जड़ा। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिचेल स्टार्क को केकेआर ने आईपीएल 2024 के ऑक्शन में 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन इंटर स्कॉड मैच में रिंकू सिंह ने उनकी दुराति कर दी।

जैसे ही स्टार्क ने लेंथ आखिरी के ओवर में आगे रखने की कोशिश की और रिंकू सिंह ने फाया कि गेंद थोड़ी सी फुल्टॉस है तो उन्होंने इसे अपने अंदाज में स्क्वायर लेग की दिशा में भेज दिया। उनको इस गेंद पर छक्का मिला। इसका वीडियो केकेआर के फैन ने शेयर किया है।

आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को अपना पहला मैच शनिवार 23 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलना है। ये मैच कोलकाता के ही इंडन गार्डेंस स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी मुकामले की तैयारी केकेआर तुफानी अंदाज में कर रही है। हालांकि, कोलकाता में पिछले साल जिस तरह के बड़े स्कोर वाले मैच नहीं हुए थे। उसी प्रकार का मैच इंटर स्कॉड वाला रहा, जिसमें पहली पारी का स्कोर 180 के करीब रहा।

ऐसा भी नहीं है कि केकेआर के इस इंटर स्कॉड मैच में मिचेल स्टार्क की हर किसी ने धुलाई की हो, बल्कि उन्होंने विकेट भी निकाले। शुरुआत में ही उन्होंने एक बल्लेबाज को lbw आउट करके एक ब्रैकअप अपने सामने वाली टीम को दिया था। हालांकि, ये मुकामला बल्लेबाजी में रिंकू सिंह के नाम रहा। उन्होंने अपनी विपक्षी टीम के खिलाफ कई बड़े शॉट लगाए। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए डेब्यू किया है तो इस सीजन में उनको मनोबल बढ़ होगा।

ऑस्ट्रेलिया के इस महान गेंदबाज का दावा- जसप्रीत बुमराह को ब्रेक नहीं दिया गया तो वे इजर्ड हो जाएंगे

नई दिल्ली . जसप्रीत बुमराह ने करीब एक साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी। ये सितंबर 2022 के बाद क्रिकेट की दुनिया से दूर थे और मार्च 2023 में उनको स्प्रेस फ़ैक्टर के लिए सर्जरी के दौर से गुजरना पड़ा था। एशिया कप 2023 से पहले उन्होंने वापसी की थी और इससे बाद से लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा ने उनको चेतावनी दी है कि अगर ब्रेक नहीं लिया तो और भी खतरे में पड़ सकते हैं। वे अगस्त 2023 में आयरलैंड के खिलाफ तीन मैचों को टी20 सीरीज खेलें थे। इसके बाद एशिया कप 2023 और फिर वर्ल्ड कप 2023 में नजर आए। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से उनको ब्रेक दिया गया। यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सीमित ओवरों की सीरीज में नहीं खेले, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ पांच में से 4 मैच खेले थे। मैक्ग्रा ने कहा कि अपने एक्शन और वर्ल्डलेड के कारण, बुमराह को अपनी गेंदबाजी में लगने वाले प्रयास को देखते हुए खेल से ब्रेक लेने की जरूरत है। मैक्ग्रा ने एमआरएफ पेस फाउंडेशन में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, आखिरी दो कदम जो वह लेता है, वह सिर्फ ज़ीज में ताकत लगाना है। इस प्रकार, उसकी गति बड़ जाती है और यही से उसे गति मिलती है।

बुमराह जैसे खिलाड़ी को ऑफ सीजन (ब्रेक) की जरूरत है, क्योंकि वह हर गेंद में बहुत कुछ डालता है। उसे एक ब्रेक की जरूरत है। अगर वह खेलना जारी रखता है, तो उसके बॉलिंग एक्शन को देखते हुए जिनका दबाव बनेगा, उससे उसका चोटिल होना संभव है, जैसा कि वह पहले भी हो चुका है। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने कहा, भारतीय तेज गेंदबाजी लंबे समय से सेट है और इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। जिस तरह से (मोहम्मद) शमी, बुमराह, (मोहम्मद) शिराज और उमेश (चावला) ने प्रदर्शन किया है, केवल अब वे उभरना शुरू करेंगे, हम बदलाव के बारे में सोच सकते हैं। हमारे पास आवेश खान और कई अन्य लोग मैदान में हैं। हम भविष्य में देखेंगे।

IPL 2024 से पहले महाकाल की शरण में पहुंचे केएल राहुल, माता-पिता ने भी किए दर्शन

नई दिल्ली एजेंसी

भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल आईपीएल 2024 से ठीक पहले उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर गए, जहाँ उन्होंने महाकाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। केएल राहुल आईपीएल में जल्द खेलते हुए नजर आएंगे। वे चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सिर्फ पहला मैच ही खेल पाए थे। इसके बाद इलाज के लिए लंदन गए और आईपीएल की तैयारी शुरू करने से पहले वे मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल लोक गए। वे पहले भी महाकाल के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन उस समय वे अपनी पत्नी अश्विनी शेट्टी के साथ वहाँ गए थे। विक्टोरिया बल्लेबाज केएल राहुल इस बार महाकाल के दर्शन करने अपने माता-पिता के साथ पहुंचे। उन्होंने भस्म अरती में हिस्सा लिया और इसके बाद वहाँ से निकल गए। वे जल्द लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि टीम का पहला मैच जबपुर में है। ऐसे में माना जा रहा है कि केएल राहुल लखनऊ की बजाय सीधे जबपुर में टीम से जुड़ेंगे।



हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि केएल राहुल का प्लान क्या है और क्या उनको आईपीएल 2024 के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया है? वे हाल ही में लंदन से लौटे हैं। केएल राहुल पिछले साल फरवरी में पत्नी के साथ महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। इसके बाद उनकी किस्मत पलटती थी और उन्होंने लगातार अच्छे प्रदर्शन क्रिकेट के मैदान पर किया था। हालांकि, आईपीएल 2023 में उनको चोट लगी थी, लेकिन वापसी के बाद

एशिया कप 2023 और वर्ल्ड कप में भी वे दमदार लय में दिखे। यहाँ तक कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़ा, और वेस्टइंडीज की सरजमीं पर खेला था। हालांकि, आईपीएल 2024 में वे नजर आएंगे और उनका अगला निशान टीम इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेलना होगा। ये टूर्नामेंट जून में यूएसए और वेस्टइंडीज की सरजमीं पर खेला जाएगा।

पैट कर्मिस को SRH कैप्टन बनाने पर हैरान है आर अश्विन, कप्तान-मार्करम के ऐसा करने के बावजूद...

नई दिल्ली एजेंसी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 17वां सीजन शुरू होने में महीने दो दिन बाकी रह गए हैं। आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की कप्तान पैट कर्मिस सभाले। एसआरएच ने साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर एडेन मार्करम को जगह कर्मिस को आगामी सीजन के लिए कैप्टन बनाया है।

पिछले सीजन में एसआरएच पाईंट्स टेबल में सबसे नीचे दर्ज हो पाया था। हालांकि, भारत के दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने कर्मिस को एसआरएच का कप्तान बनाने पर हैरानी जताई है। बता दें कि तेज गेंदबाज कर्मिस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं।

उनकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के अलावा वनडे वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया। वहीं, मार्करम की कप्तानी में सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने पिछले महीने साउथ अफ्रीकी लीग SA20 के दूसरे सीजन का खिताब जीता। पिछले सीजन में भी ईस्टर्न केप ने टूर्नामेंट हासिल की थी, जो एसआरएच की रिसटर फंक्शनरी है। अश्विन ने कहा कि ऐसा करने के बाद मार्करम को एसआरएच का कप्तान बनाए रखना चाहिए था।

एमएस धोनी बहुत पहले समझ गए कि क्रिकेट सबकुछ नहीं क्योंकि...जहीर खान ने IPL 2024 से पहले ये क्या कह दिया

नई दिल्ली एजेंसी

आईपीएल 2024 की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है। 17वें सीजन का पहला चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु (आरसीबी) के बीच खेला जाएगा। एमएस धोनी की अगुवाई वाली सीएसके डिफेंडिंग चैंपियन है। सीएसके छटा खिताब जीतने की भिराक में होगी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी को जमीन से जुड़े रहना पसंद है। वह

लाइमलाइट को ज्यादा लवजको नहीं देते। भारत के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जहीर खान ने धोनी को लेकर एक बड़ी कही है। उन्होंने कहा कि धोनी बहुत पहले समझ गए थे कि क्रिकेट ही सबकुछ नहीं है। जहीर और धोनी लंबे समय तक भारत के लिए साथ खेल चुके हैं। धोनी ने पिछले साल कहा था कि वह एक अच्छे क्रिकेटर से ज्यादा एक अच्छे इंसान के तौर पर याद किया जाना पसंद करेंगे। जहीर से जब जियो सिनेमा पर धोनी के इस



नजरिए के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जब आप खेल रहे हो तो गेम से सिव्य ऑफ करना बहुत अहम होता है। क्रिकेट ही सब कुछ नहीं है। हर क्रिकेटर को आखिरकार इसका सामना करना पड़ता है। जब आप खेल से दूर हो जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते। हमने कई एथलीटों को रिटायर होने के बाद संपर्क करते देखा है क्योंकि उन्होंने खेल को अपना सब कुछ दे दिया और जब उन्होंने इसे छोड़ा तो उन्हें नहीं मालूम था कि क्या करना है। इस सिद्धांत से एमएस धोनी को बहुत पहले ही समझ आ गया था कि वह क्रिकेट को लेकर पेशेवर हैं।

जियोसिनेमा पर सुन पाएंगे इन दिग्गजों की कमेंट्री, वीरेंद्र सहवाग का दिखेगा हरियाणवी अंदाज

नई दिल्ली

IPL 2024 की शुरु होने में अब बहुत कम वक्त बाकी है। इस बीच टूर्नामेंट के ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर जियोसिनेमा ने अपनी कमेंट्री टीम का ऐलान कर दिया है। इस बार हरियाणवी में भी आईपीएल की कमेंट्री सुनाई देगी। वीरेंद्र सहवाग हरियाणवी में कमेंट्री करते नजर आएंगे। वहीं, पूर्व क्रिकेटर अजय जडेज गुजराती कमेंट्री में डेब्यू करने वाले हैं। जियोसिनेमा पर हिंदी और अंग्रेजी स्प्रेड कूल 12 भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिली। इनमें अंग्रेजी और हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ शामिल है। ज्यॉक हरियाणवी का डेब्यू होगा। आईपीएल चैंपियन शेन वॉटसन और न्यूजीलैंड का पूर्व कोच और रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर के क्रिकेट निदेशक माइक हेसन भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं। जियोसिनेमा का



होरो कैम भी आईपीएल 2024 में देखा जाएगा, जहाँ हर वक्त एक कैमरा टीम के कप्तान पर रहेगा। हालांकि, कुछ मौकों पर हेरो रॉहित शर्मा और विराट कोहली भी होंगे, क्योंकि वे कप्तान नहीं हैं, लेकिन खेल की दुनिया में इस समय एक धब्बा है जिसे आप मिताना चाहेंगे। यह किसी भी तरह से उसमें हमारे लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और आप इसे देख सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैंने उन्हें अब तक का सर्वश्रेष्ठ भारतीय बल्लेबाज रेट किया है। ऐसा समय था, जब मैं अपना टूर्नामेंट लगाता था और सुनील गावस्कर को वेस्टइंडीज के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए सुनता था, वह 70 का दफ्क है। वेस्टइंडीज के महान तेज गेंदबाज, स्कूल बंद करना और सिर्फ एक पोरियड के लिए चारर जाना और सुनना कि वह किना हेल्मेट के कैसे बल्लेबाजी कर रहे थे, वह उनका युग था। करीब 15-20 साल तक उनका दबदबा रहा।

श्रीलंका ने ICC के साथ कर दिया खेला, वानिंदु हसरंगा को जज20 वर्ल्ड कप 2024 के बैन से बचाया



नई दिल्ली . श्रीलंका ने इंटरनेशनल क्रिकेट कार्डिनल यानी आईसीसी को भी धमका दे दिया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड या फिर श्रीलंका क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट ने अपने एक अहम खिलाड़ी को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए बैन होने से बचा लिया है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि भाकडू ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा हैं, जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सभी लीग मैचों से बाहर हो सकते थे, लेकिन श्रीलंका ने एक ऐसी चाल चली कि उनको अब टी20 वर्ल्ड कप में खेलने से कोई नहीं रोक पाएगा।

यथा है पूरा मामला दरअसल, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 18 मार्च को खेला गया। इस मैच के दौरान श्रीलंकाई ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने अंपायर को गलती दे दी। इसकी जानकारी टीम के कप्तान कुसल मंडिस और टीम मैनेजमेंट को मिली। इसके बाद जो हुआ, वह एक सोची-समझी रणनीति थी, जिसके चलते हसरंगा को टी20 वर्ल्ड कप के लिए बचचा गया। हसरंगा, कप्तान और श्रीलंका की टीम जानती थी कि अंपायर को गलती देने के लिए उन पर बैन लगेगा, क्योंकि वे पहले ही दो टी20 मैचों का बैन झेल चुके थे। उनके खाले में पहले से ही 5 डेमेरिट पॉइंट थे। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद उनको कम से कम 3 डेमेरिट पॉइंट और मिलने की आशंका थी। ऐसा होता ही उनके खाले में चार सस्पेंशन पॉइंट होते और ऐसे में उनको दो टेस्ट या फिर 4 वनडे बैन लगे। इससे बचने के लिए हसरंगा की ओर से कर दिया गया कि वे टेस्ट रिटायरमेंट से वापसी करेंगे। उनको टेस्ट टीम में जगह मिल गई।

कमेंट्री माइक पकड़ने से पहले नवजोत सिंह सिद्धू का तड़तड़ता बयान, विराट को बताया सचिन से भी बेहतर बल्लेबाज

फिर से कमेंट्री माइक पकड़ने से पहले नवजोत सिंह सिद्धू का एक तड़तड़ता बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और एमएस धोनी से बेहतर बल्लेबाज बताया है।



नई दिल्ली एजेंसी कमेंट्री की दुनिया में वापसी कर रहे पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने विराट कोहली को सर्वकालिक महान बल्लेबाज बताया है। यहाँ तक कि नवजोत सिंह सिद्धू ने विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर ही नहीं, बल्कि सुनील गावस्कर और एमएस धोनी से भी महान बल्लेबाज की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा है। लंबे समय के बाद नवजोत सिंह सिद्धू कमेंट्री करते नजर आएंगे, लेकिन उनका ये बयान सुनियोंने हैं। सिद्धू ने अलग-अलग समय की बात की, लेकिन फिर भी विराट को सभी से बेहतर माना है। नवजोत सिंह सिद्धू से इंडियनटेलेविजन से बात करते हुए कहा कि उनको लगता है कि विराट कोहली भारत के सबसे अच्छे क्रिकेटर हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर से पूछा गया कि क्या विराट कोहली को आगामी आईपीएल में आरसीबी के लिए खुद को नंबर 3 पर उठाकरना चाहिए। कई लोगों ने तर्क दिया है कि अगर भारत आने वाले टी20 विश्व कप में उन्हें बल्लेबाजी क्रम में वन-ड्राउन खिलाना चाहता है

विराट कोहली का RCB के फैस के लिए मैसेज, बोले- मुझे उस नाम से ना बुलाएं, मुझे शर्मिंदगी होती है

दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने RCB के फैस के लिए एक मैसेज दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे किंग कहकर ना बुलाएं, मुझे इससे शर्मिंदगी महसूस होती है। विराट ने कहा कि उनको नाम से पुकारा करें।



नई दिल्ली . भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हमेशा इंडियन प्रीमियर लीग फंक्शनरी रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु का पर्याय बने रहेंगे। मंगलवार 19 मार्च को उन्होंने आरसीबी के एक इवेंट में अपने और टीम के प्रशंसकों को आभारम दिया कि वह हमेशा आरसीबी के साथ बने रहेंगे और उस टीम का हिस्सा बनेंगे जो पहली बार बंगलुरु के लिए आईपीएल जीतेगा। आरसीबी की महिला टीम ने इस बार WPL का खिताब जीता है, लेकिन 16 सीजन में आरसीबी आईपीएल नहीं जीती है। आरसीबी द्वारा शेयर किए वीडियो में विराट कोहली ने कहा, जैसा कि सभी जानते हैं, मैं हमेशा उस समूह का हिस्सा बनने के लिए वहाँ रहूंगा जो पहली बार खिताब जीतेगा, मैं प्रशंसकों और फैंस को के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। वह जानना मेरा भी एक सपना है कि आईपीएल जीतना कैसा लगता है - उम्मीद है

इस साल। विराट कोहली ने महिला टीम को सराहना की और मंगलवार को आरसीबी के अनबाईस इवेंट में स्मृति मंथाना एंड कंपनी को सलामी दी। कोहली ने कहा, खिलाल अद्भूत। जब वे जीते, हम सभी इसे देख रहे थे और उस समय आपको फैन बेस की भावना का पूर्ण शुद्धतम रूप का एहसास होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लगा कि शहर जीत गया। यदि आप आरसीबी महिला टीम द्वारा खेले गए सभी खेलों के दौरान प्रशंसकों की उपस्थिति को देखें, तो इमानदारी से कहें तो कर्की टीमों के मुकामले इसकी कोई तुलना नहीं की आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा दर्शक मैच देखने पहुंचे थे। इसी इवेंट में विराट कोहली ने फैंस से ये भी अनुरोध किया कि उनको किंग कहकर ना बुलाएं। उन्होंने कहा, वापस आना सुखद है। दोस्तों, हमें बहुत जल्दी चेन्नई पहुंचना है। हमारे चार्टर फ्लाइट से वहाँ जाना है, इसलिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है (मुस्कान)। और सबसे पहले, आपको मुझे उस शब्द (किंग) से बुलाना बंद करना होगा। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है जब आप मुझे ऐसा कहते हैं और वे इस तरह प्रतिक्रिया करते हैं, अब से मुझे बस विराट कहकर बुलाएं, उस शब्द का इस्तेमाल ना करें।

महाराष्ट्र: ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई?

भाजपा ने नई रणनीति बनाई! राज ठाकरे के महायुति में जाने की संभावना

रणनीति

8 टूट के बाद ठाकरे परिवार के सदस्यों के बीच एक राजनीतिक द्वंद्व उत्पन्न करने की रणनीति बना रही



मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गईं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज ठाकरे 'राजग' खेमों में जाना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाजपा मुख्य तौर पर बाला साहेब ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना में टूट के बाद ठाकरे परिवार के सदस्यों के बीच एक राजनीतिक द्वंद्व उत्पन्न करने की रणनीति बना रही है। 'महायुति' में सत्तारूढ़ भाजपा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली शिवसेना और

एनसीपी प्रमुख अजित पवार को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को झटका देते हुए शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करने को कहा। इसके अलावा कोर्ट ने अजित पवार को 'घड़ी' चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने की अनुमति दे

दी, जबकि शरद पवार की पार्टी 'राकांपा-शरदचंद्र पवार' लोकसभा चुनाव लड़ सकती है और कोर्ट ने 'ट्रम्पेट' चुनाव चिह्न को अपनी मान्यता दे दी, जो शरद पवार की पार्टी का चुनाव चिह्न है।

विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि, पार्टी को अब तक एक भी संसदीय सीट पर जीत नसीब नहीं सकी है।

पवार बनाम पवार: राज ठाकरे की बात बन गई तो ठाकरे बनाम ठाकरे के बीच जबरदस्त मुकाबला होने की संभावना है, लेकिन एक परिवार और भी है, जहां पर भाभी बनाम ननद की लड़ाई देखने को मिल सकती है। मनसे ने 2009 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 13

लेकर चाचा से लड़ाई तो जीत गए, लेकिन वह इतने में ही नहीं रुकने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अजित पवार बारामती से बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा को मैदान में उतार सकते हैं। अजित पवार ने पिछले साल चाचा शरद पवार द्वारा गठित पार्टी से विद्रोह कर सरकार को अपना समर्थन दिया था और बाद में पार्टी पर भी कब्जा स्थापित कर लिया।

वरुण गांधी को कांग्रेस के गढ़ से लड़ने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी!

शांति

8 मेनका को पीलीभीत तो वहां से उनके बेटे वरुण गांधी रायबरेली भेजे जा सकते हैं



टीम एक्शन इंडिया

सुलतानपुर: मेनका गांधी को पीलीभीत तो वहां से वरुण गांधी रायबरेली भेजे जा सकते हैं। वहीं, सुलतानपुर सीट पर इस बार स्थानीय प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। भाजपा में भीतरखाने इस बात की चर्चा तेज हो गई है। इस चर्चा को कई कोण से बल भी मिलता नजर आ रहा है, लेकिन सही तस्वीर 22 मार्च तक सामने आने की उम्मीद है।

लगातार दो चुनावों में भाजपा सुलतानपुर सीट पर अपराजय रही। 2014 के चुनाव में यहां से वरुण गांधी 2019 में उनकी मां मेनका गांधी सांसद बनीं। इस बार भाजपा

जीत की हैट्रिक लगाने की फिफाक में है। कई स्तरों पर हुए सर्वे के बाद यह सीट पार्टी के लिए मजबूत मानी जा रही है। **किसी स्थानीय नेता को पार्टी दे सकती है मौका:** ऐसे में यहां से किसी नए और स्थानीय चेहरे को मौका देने की तैयारी है। इसमें बरियता कुर्मी बिरादरी के दावेदार को मिलने के आसार हैं। हालांकि, अब तक यह महज संभावना है। फैजाबाद मंडल में सबसे कमजोर सीट अंबेडकरनगर मानी जा रही थी, इसके लिए भाजपा ने बसपा के

वर्तमान सांसद रितेश पांडेय को पाले में कर बड़ा दांव चल दिया है। वहीं, लखनऊ मंडल में भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी रायबरेली है। कारण, लगातार कांग्रेस व गांधी परिवार का कब्जा है। **वरुण गांधी को रायबरेली से टिकट दे सकती है भाजपा:** पिछली बार सांसद चुनी गई सोनिया गांधी ने इस बार खुद को किनारे कर लिया। वह राज्यसभा के जरिए उच्च सदन में पहुंच गईं। उनकी जगह कौन लेगा, अभी यह तय नहीं हो सका।

यूपी की हाईप्रोफाइल सीट पर हो सकता है बड़ा फेरबदल



टीम एक्शन इंडिया

बरेली: राजनीति का ऊंट कब, कहाँ किस करण बैठे, यह कहना थोड़ा मुश्किल रहता है। भाजपा में भी इन दिनों यही चल रहा है। मंडल की तीन सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं होने पर तमाम चर्चाएँ सियासी गलियारों में हैं। हालांकि, अब पीलीभीत का टिकट बुधवार को घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। वहां के टिकट पर बरेली वालों की भी निगाह है। उसी आधार पर यहां का टिकट घोषित होने की बात उठने लगी है। भाजपा ने अब तक प्रत्याशियों की दो सूची जारी कर दी है। पहली सूची में मंडल की दो सीटों आंबला पर धर्मेश कश्यप और शाहजहापुर में अरुण सागर को प्रत्याशी बनाया है। बरेली, पीलीभीत और बदरुंगी की सीट पर फिलहाल प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। मंगलवार को नाम साफ होने की उम्मीद थी, लेकिन वह नहीं हो पाया। **पीलीभीत में पहले चरण में होना है चुनाव:** पीलीभीत में बरेली में चुनाव होना है, इसके लिए वहां

सियासी भंवर

8 पीलीभीत में सात बार कुर्मी प्रत्याशी ने ही जीत हासिल की। वहां कुर्मी समाज से प्रत्याशी उतारा जा सकता है

बुधवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में समझा जा रहा है कि बुधवार को पार्टी पीलीभीत के प्रत्याशी का नाम घोषित कर सकती है। पीलीभीत के टिकट पर ही बरेली सीट के दावेदारों की भी नजर है। माना जा रहा है कि पीलीभीत में सात बार कुर्मी प्रत्याशी ने ही जीत हासिल की। ऐसे में वहां कुर्मी समाज से प्रत्याशी उतारा जा सकता है। ऐसे में अगर वहां से कुर्मी समाज को टिकट दिया तो बरेली सीट पर नान-कुर्मी प्रत्याशी को टिकट मिल सकता है। इसके विपरीत पीलीभीत में नान-कुर्मी प्रत्याशी होने पर बरेली में कुर्मी समाज को वरीयता दी जाएगी।

'कुशवाहा लैंड' पर बड़े सियासी खेल की तैयारी

टीम एक्शन इंडिया
दाउदनगर (औरंगाबाद): भाजपा ने सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत काराकाट की सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी है। पार्टी से अधिक चर्चा इस बात की है कि भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को ये सीट दी है। इससे यह साफ संदेश जा रहा है कि काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा होंगे। लगातार कुशवाहा जाति के व्यक्ति के सांसद बनने से काराकाट को 'कुशवाहा लैंड' कहा जाने लगा है। 'कुशी स्थिति बनते ही दो बार के सांसद रह चुके जदयू के नेता महाबली सिंह बेटिकट हो गए हैं। वह लगातार परिश्रम कर रहे थे और चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार, महाबली सिंह ने अपने खास



कार्यकर्ताओं को सक्रिय भी कर दिया था और चुनावी मैनेजमेंट के सभी आयामों पर काम करने का निर्देश दे रखा था। लगातार इलाके का दौरा कर रहे थे। सबकुछ उस वक्त धराशाथी हो गया जब एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा के लिए काराकाट सीट देने के लिए जदयू ने

चुनावी समर

8 लगातार कुशवाहा जाति के व्यक्ति के सांसद बनने से काराकाट को 'कुशवाहा लैंड' कहा जाने लगा

सिंह को दी है। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री चेहरा घोषित किए गए तो जदयू अलग हो गई और तब यहां से राजग का सहयोगी बनकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े थे।

बिहार महागठबंधन नेचुरल एलायंस नहीं, सबके अपने एजेंडे छिपे: विजय सिन्हा

टीम एक्शन इंडिया
पटना: बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन आईएनडीआईए में सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा है? यह सवाल सभी के मन में है। कारण कि लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। हालांकि, इस सवाल का जवाब अब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को कहा कि एक ही सीट जीतने की उनकी स्थिति नहीं बन रही है, इसलिए सीट का बंटवारा नहीं हो पा

रहा है। मीडिया से बात करते हुए विजय सिन्हा ने बुधवार को कहा कि महागठबंधन के लोग नेचुरल एलायंस नहीं हैं। इन लोगों के अपने-अपने छिपे हुए एजेंडा हैं। अपना-अपना स्वार्थ है। एक सूत्री अभियान है कि मोदी को रोकना। भ्रष्टाचारयुक्त, वंशवादी-परिवारवादी लोग जब निगेटिव एजेंडा लेकर चलेंगे तो इनके स्वार्थ की टकराहट में सीट का बंटवारा क्लियर नहीं होगा। सब लोग डर रहे हैं कि कौन सी सीट लें जिसमें हमारी जीत की संभावना बन सके, क्योंकि बिहार में



एक भी सीट पर जीत की उनकी स्थिति नहीं बन रही है। इसलिए ऊहापोह की स्थिति है और इसी वजह से सीट का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। **बाहुबली की लालू से मुलाकात**

साधा निशाना

8 एक भी सीट जीतने की उनकी स्थिति नहीं बन रही है, इसलिए सीट का बंटवारा नहीं हो पा रहा है: डिप्टी सीएम

पर भी दिया जवाब: विजय सिन्हा ने इसके बाद मीडिया के नवादा के बाहुबली की राजद सुप्रीमो लालू स्थित से हुई मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया।

उन्होंने कहा कि एक चीज मैं बता दू कि विजय सिन्हा का राजनीति में प्रवेश बाहुबली के विरुद्ध ही हुआ है। जिन अशोक महतो को आज लालू यादव ला रहे हैं, उस अशोक महतो से विजय सिन्हा 2003 में चुनाव लड़ चुका है, तब लालू की सरकार ही थी। उस समय उनकी भी परत किया है। बड़े-बड़े क्रिमिनल से भी हम लोग चुनाव लड़े हैं। मुग़र हो या चालीसों सीट बिहार की हो भाजपा के पक्ष में देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में चुनाव का आशीर्वाद है।

बिहार: ओवैसी बिगाड़ेंगे इंडिया गठबंधन का खेल!

टीम एक्शन इंडिया
बहादुरगंज (किशनगंज)
बिहार किशनगंज लोकसभा क्षेत्र पर चुनाव दूसरे चरण में होना है। अभी तक किसी भी गठबंधन ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का नाम अधिकृत रूप से घोषित नहीं किया है। एआईएमआईएम के तरफ से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश इमाम का किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना तय है। हालांकि, पार्टी के तरफ से अधिकृत रूप से घोषणा अभी बाकी है। इधर, एनडीए की ओर से किशनगंज लोकसभा सीट से जदयू चुनाव लड़ेगी। जदयू की तरफ



से जिलाध्यक्ष मुजाहिद आलम के प्रत्याशी बनने की संभावना जताई जा रही है। एनडीए या जदयू पार्टी की तरफ से अधिकृत घोषणा का लोग इंतजार कर रहे हैं। **जावेद अख्तर हो सकते हैं कांग्रेस उम्मीदवार:** विते लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार के 40 सीटों में महागठबंधन की ओर से मात्र किशनगंज से डॉ. जावेद अख्तर के

विश्व गौरैया दिवस पर वितरित किये घोंसला

पूर्वी चंपारण: विश्व गौरैया दिवस पर डाक विभाग मोतिहारी के तवाधान में गौरैया सहित पर्यावरण अनुकूल अन्य पक्षियों के संरक्षण का संकल्प लिया गया। डाक अधीक्षक चंपारण प्रमंडल, डॉ. आशुतोष आदित्य एवं गौरैया संरक्षण के अभियान कर्ता केबीसी सीजन-5 के विजेता सुशील कुमार की उपस्थिति में डाक अधीक्षक कार्यालय, मोतिहारी में आयोजित विश्व गौरैया दिवस पर सुशील कुमार ने डाक अधीक्षक सहित अन्य डाक कर्मियों को घोंसला प्रदान किया गया। साथ ही सुशील कुमार ने आग्रह किया कि आप सभी इस मुहिम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर और अपने आसपास गौरैया संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करें।

जीरो टॉलरेंस वाली सरकार की नीति जीरो है : राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दो सगे भाईयों की हुई नृशंस हत्या के मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। कई नेताओं ने इस हत्याकांड पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। सपा नेता ने घटना के पीछे भाजपा पर राजनीतिक मंशा का आरोप आरोप लगाया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस घटना को



सरकार और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा बताया। उन्होंने कहा- जीरो टॉलरेंस वाली सरकार की नीति जीरो है। भाजपा हर घटना से राजनीतिक लाभ लेती है। वहीं

सिद्धू मूसेवाला के पिता से मिले मानसा एसएसपी

बटिंडा के अस्पताल में बंद कमरे में की बातचीत, बताया निजी मुलाकात

टीम एक्शन इंडिया
बटिंडा: सिद्धू मूसेवाला के पिता द्वारा इंटरनेट मीडिया पर डाली पोस्ट के बाद मानसा के एसएसपी डा.नानक सिंह उनको मिलने के लिए बटिंडा पहुंचे। बटिंडा के जिनंदल हार्ट अस्पताल में पहुंचे एसएसपी डा.नानक सिंह ने सिद्धू के पिता बलकौर सिंह के साथ बंद कमरा में मुलाकात की। एसएसपी नानक सिंह ने इस मुलाकात को एक निजी मुलाकात बताया है। उनका कहना है कि उनके परिवार के साथ अच्छे ताल्लुक हैं। इसके चलते वे निजी तौर पर उनके परिवार से मिलने के लिए आए थे। **बलकौर सिंह ने लगाए आरोप:**



बता दें कि बीते दिन सिद्धू के पिता बलकौर ने इंटरनेट मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया। जिसमें उन्होंने लिखा कि सरकार मुझे बच्चे की कानूनी स्थिति साबित करने के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कह रही है। मुझे इसके बारे में पूछा जा रहा है। मैं सरकार,

विशेषकर मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया इलाज पूरा करने की अनुमति दें। मैं यहीं पंजाब में रहता हूँ और जब भी जरूरत होगी मैं आऊंगा। कृपया पहले इलाज पूरा करने को प्राथमिकता दें। दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के घर में रविवार की सुबह पांच बजे एक बार फिर किलकारियां गुंजीं। 58 साल की उम्र में सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने आइवीएफ तकनीक के जरिए बच्चे को जन्म दिया था। वहीं आइवीएफ तकनीक को लेकर केंद्र सरकार ने बच्चे को जन्म देने के संबंध में पंजाब सरकार से जवाब मांगा।

असमंजस

अपने गढ़ को फिर से प्राप्त करने के लिए इस बार कांग्रेस घेराबंदी में लगी हुई है जालंधर सीट से पूर्व सीएम चन्नी हो सकते हैं उम्मीदवार

टीम एक्शन इंडिया
जालंधर: कांग्रेस में जालंधर लोकसभा सीट से उम्मीदवार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अपने गढ़ को फिर से प्राप्त करने के लिए इस बार कांग्रेस घेराबंदी में लगी हुई है। इस सीट से टिकट के लिए पूर्व सांसद स्व. चौधरी संतोख सिंह की पत्नी कर्मजीत कौर और बेटे विक्रमजीत सिंह चौधरी ने पुरा जोर लगा रखा है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को इस बार जालंधर के चुनावी दायल में उतारने की चर्चा चल रही है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के अनुसार जालंधर से



चन्नी का नाम लगभग फाइनल है। केवल हाईकमान की ओर से घोषणा का इंतजार है। चन्नी अगर

ठोकेंगे ताल

8 कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के अनुसार जालंधर से चन्नी का नाम लगभग फाइनल है

जाएगा। जालंधर लोकसभा सीट पर जो जातीय समीकरण हैं, उसे देखते हुए कांग्रेसियों को चन्नी से ही उम्मीद है। हालांकि, कांग्रेस को कुछ वरिष्ठ नेताओं की बग़ावत का डर भी सता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी कांग्रेस में बड़ा चेहरा हैं।

जालंधर लोकसभा सीट के तहत आने वाले विधानसभा हलकों में डेरों की भूमिका अहम रहती है। माना जाता है कि चन्नी की डेरों में अच्छी पैठ है। अगर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू का मुकाबला करना है तो डेरों का साथ बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे भी इस लोकसभा क्षेत्र में जो जातीय समीकरण हैं, वह भी चन्नी के पक्ष में जा सकते हैं। रविदासिया समाज जालंधर लोकसभा सीट के परिणाम में बड़ी भूमिका निभाता है। चन्नी और रिंकू दोनों रविदासिया समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं।